

PASS to DUNSMITH MECHANICALS
Schedule XLV-Form No. 434

DIVISION

90
HHH 11 1121

SUB-DIVISION

1842

Measurement Book

प्रमाणित किया जाता है कि इस मशीन
पुस्तक में कुल 10 (दस) पृष्ठ हैं
जो धोई में छपी गयी हैं।

इस मशीन पुस्तक सहायक अभियंता
जयराज सिंह द्वारा मंगलम, मंगलसिंह
डी. ए. डी. अन्तर्गत पुराना से
इस मशीन मंगलसिंह/पुस्तक के बारे में
मिशन दिया गया है।

Am 96/20.9.20
EXECUTIVE ENGINEER
R.W.D. Works Div. Bettiah

20/09/20

Re issued to the name of J. E.
Sund Kumar.

Sch. XLV - Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

MB. NO. - 1842

Issue Date - 20/09/20

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name of Work—
 Situation of Work—
 Agency by which work is executed—
 Date of Measurement—
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work: FDR					
Name of road: Road to					
Dumraiy's Mchaulys					
Agency: Departmental					
Block: Mchaulys					
District: West Champaran					
Division: RWD, Works Division,					
Beethah					
Authority: Executive Engineer					
Works Division, Beethah					
Items: Earth work and Brick Lts.					
Recd of measurement					
1x 30m x $\left(\frac{6.0+4.5}{2}\right)$					
$\times \left(\frac{0.30+0.45+0.25}{3}\right)$					52.50 m ²
1x 30m x $\left(\frac{6.0+4.5}{2}\right)$					
$\times \left(\frac{0.30+0.45+0.25}{3}\right)$					52.50 "
1x 30m x $\left(\frac{6.0+4.5}{2}\right)$					
$\times \left(\frac{0.30+0.45+0.25}{3}\right)$					52.50,
1x 30m x $\left(\frac{6.0+4.5}{2}\right)$					
$\times \left(\frac{0.30+0.45+0.25}{3}\right)$					52.50 "
1x 30m x $\left(\frac{5.8+4.4}{2}\right)$					
$\times \left(\frac{0.4+0.5+0.4}{3}\right)$					66.30,
1x 30m x $\left(\frac{5.8+4.4}{2}\right)$					
$\times \left(\frac{0.4+0.5+0.4}{3}\right)$					66.30,

10/10/20

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
	1x	27.00	$\times \left(\frac{5.6+4.4}{2} \right)$		
			$\times \left(\frac{0.5+0.7+1.0}{3} \right) =$		101.250 m
				Total =	1056.243 m
					539.64 m
1211.10 SE			1211.10 +6		
<u>Revised Measurement</u>					
! Earth work					
	1x	30.00	$\times \left(\frac{1.0+0.8}{2} \right)$		
			$\times \left(\frac{1.2+1.6+1.2}{3} \right) =$		36.00 m
	1x	30.00	$\times \left(\frac{1.0+0.8}{2} \right)$		
			$\times \left(\frac{1.2+1.6+1.2}{3} \right) =$		36.00 m
	1x	30.00	$\times \left(\frac{1.0+0.8}{2} \right)$		
			$\times \left(\frac{1.2+1.6+1.2}{3} \right) =$		36.00 m
	1x	30.00	$\times \left(\frac{1.0+0.8}{2} \right)$		
			$\times \left(\frac{1.2+1.6+1.2}{3} \right) =$		36.00 m
	1x	30.00	$\times \left(\frac{0.8+1.0}{2} \right)$		
			$\times \left(\frac{1.2+1.6+1.2}{3} \right) =$		36.00 m
	2x	30.00	$\times \left(\frac{0.8+1.0}{2} \right)$		
			$\times \left(\frac{1.2+1.6+1.2}{3} \right) =$		72.00 m
	2x	30.00	$\times \left(\frac{0.7+0.9}{2} \right)$		
			$\times \left(\frac{1.1+1.5+1.2}{3} \right) =$		60.80 m
	1x	30.00	$\times \left(\frac{0.8+0.9}{2} \right)$		
			$\times \left(\frac{1.0+1.6+1.3}{3} \right) =$		33.150 m
	1x	20.00	$\times \left(\frac{0.5+1.0}{2} \right)$		
			$\times \left(\frac{0.8+1.0+0.7}{3} \right) =$		17.50 m

Continuation